

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 13.09.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा 06 घण्टे के अन्दर चोरी हुआ ट्रक माल सहित(कीमत करीब ₹ 25 लाख) बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना को0कटरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांक 12.09.2022 को वादी गंगाधर पुत्र पंचम लाल निवासी हेमपुर थाना माण्डा जनपद प्रयागराज द्वारा लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा ट्रक वाहन संख्या:यूपी63टी9770 में लदे सरकारी गल्ले सहित चोरी हो जाने के सम्बन्ध में दी गई। जिसके आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-179/2022 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा उक्त ट्रक चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 13.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक को0कटरा मय पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र जीतू यादव निवासी नेवढिया थाना पड़री जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी हुई ट्रक वाहन संख्या: यूपी63टी9770 को उसमें लदे माल 64 बोरी सरकारी गल्ला सहित 06 घण्टे के अन्दर बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया कि मैं पेशे से ट्रक चालक हूं तथा मेरे द्वारा लालच में आकर चोरी की घटना को कारित किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

सुरेश यादव पुत्र जीतू यादव निवासी नेवढिया थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

1- चोरी की एक अदद ट्रक वाहन संख्या:यूपी63टी9770.

2- 64 बोरी सरकारी गल्ला(ट्रक में लदा)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक को0कटरा नवीन तिवारी मय पुलिस टीम।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 10 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

